

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- सितम्बर 18 , 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***175 वाहनों का चालान , 02 वाहन सीज व 32 वाहनों से कुल 29500/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 45*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 269 व्यक्तियों से 26900/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते

हुए कुल-02 अभि० को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली० कच्ची व 22 शीशी देशी शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुदामा पुत्र स्व० झीनक नि० चकदह थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से *10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०-238/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोनू पुत्र मिठाई नि० सेमरा थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से *22 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 165/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से *295 किलोग्राम मटर* बरामद *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सहमत अली पुत्र वाजिद नि० बटईडिहा थाना कोल्हुई महाराजगंज के कब्जे से *550 किलोग्राम मटर दाल व 01 अदद वाहन* बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त उमेश पाण्डेय पुत्र शिव नरायन नि० भुण्डी थाना नौतनवां महाराजगंज के कब्जे से *150 किलोग्राम प्याज* बरामद *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

आर्म्स अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त चुनमुन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० सुभाष नगर वार्ड नं० - 9 थाना कोतवाली महाराजगंज के कब्जे से *01 अदद नाजायज चाकू* बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 449/20, धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मोहम्मदीन पुत्र कमरुद्दीन नि० बटईडीहा थाना कोल्हुई महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल-06* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 17/18-09-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 25 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।